

प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 17.10.2020

दिनांक 16.10.2020 में सोनबरसा जंगल समयमाता स्थान के पास राणाप्रताप पुत्र हीरालाल निवासी जंगल अयोध्याप्रसाद टोला श्रीरामपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर की बदमाशो द्वारा हत्या कर लाश को फेक देने के सम्बन्ध में।

घटनाक्रम:- दिनांक 15/16.10.2020 की रात्रि में राणाप्रताप बेलदार उपरोक्त का शव ग्राम खुटहनखास टोला सोनबरसा समयमाता स्थान के पास अज्ञात बदमाशो द्वारा सिर पर डण्डे से प्रहार कर हत्या कर देने तथा लाश को फेक दिया गया था। साथ ही साथ शव के ऊपर मोटरसाइकिल गिराकर एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-1157/20 धारा 302 भादवि व 3(2)5 SC/ST एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर पंजीकृत हुआ था।

घटना के अनवारण के सम्बन्ध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा उपरोक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीम बनाकर लगाया गया था।

इस क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा /विवेचनाधिकारी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मय टीम के साथ उपरोक्त घटना के अनवारण व मुकदमें में शामिल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। उक्त टीमो द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लगातार प्रयास किया जा रहा था। पूछताछ पतारसी सुरागरसी अन्य तथ्यो से जानकारी हुई की राणाप्रताप की हत्या में राकेश यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी खुटहनखास टोला सोनबरसा तथा रामकेश यादव पुत्र स्व0 रामअवध यादव निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद दरोगा टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर व पन्नेलाल पुत्र रामकिसुन निवासी पतरा थाना पिपराईच हालपता मिर्जापुर थाना चिलुआताल गोरखपुर का मुख्य हाथ हैं। अभियुक्तगण राकेश यादव व रामकेश यादव उपरोक्त को आज दिनांक 17.10.2020 को समय करीब 1.30 बजे बेनीगंज के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण अपना जुर्म स्वीकार कर रहे है तथा यह भी बता रहे है कि रामकेश यादव का एक महिला से प्रेमसम्बन्ध था उसी महिला से राणाप्रताप भी लुकछिप कर प्रेम करता था। जिसको बार बार रामकेश यादव द्वारा मना करने पर वह मान नहीं रहा था उसको रास्ते से हटाने के लिए रामकेश यादव ने अपने दोस्त राकेश यादव व पन्नेलाल के साथ जान से मारने की योजना बनाकर राणाप्रताप को बहला-फुसलाकर समयमाता स्थान सोनबरसा जंगल में उसी की मोटरसाइकिल से ले गये जहां पर रामकेश यादव, राकेश यादव ने राणाप्रताप के सिर पर डण्डे से प्रहार कर हत्या कर दिये तथा हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसकी मोटरसाइकिल को उसके शरीर के ऊपर गिरा दिये। पन्नेलाल ने इस घटना में अभियुक्त गण का सहयोग किया था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता:-

- 1-रामकेश यादव पुत्र स्व0 रामअवध यादव निवासी जंगल अयोध्याप्रसाद टोला दरोगा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
- 2-राकेश यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी खुटहनखास टोला सोनबरसा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
- 3- पन्नेलाल बेल्लदार पुत्र रामकिसुन निवासी पतरा थाना पिपराईच हालपता मिर्जापुर थाना चिलुआताल गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

बेनीगंज के पास समय 13.30 बजे दिनांक 17.10.2020

अभियुक्त के पास से बरामदगी:-

दो अदद आला कत्ल डण्डा

अभियुक्तगण को जिस मुकदमें में गिरफ्तार किया गया:-

मु0अ0सं0 1157/2020 धारा 302 भादवि व 3(2)5 SC/ST एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

अभियुक्त रामकेश यादव का अपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 198/2013 धारा 395,379,411,412 भादवि व 26 एफ एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
- 2- मु0अ0सं0365/13 धारा 110जी थाना गुलरिहा
- 3- मु0अ0सं0 422/13 धारा ¼ गुण्डा एक्ट थाना गुलरिहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय थाना गुलरिहा
- 2-निरीक्षक अपराध रामभवन यादव थाना गुलरिहा
- 3-उ0नि0 अमित कुमार राय थाना गुलरिहा
- 4-उ0नि0 रामबहादुर यादव थाना गुलरिहा
- 5-उ0नि0 गोपाल यादव थाना गुलरिहा
- 6-उ0नि0 संजीव सिंह थाना गुलरिहा
- 7-उ0नि0 दुर्गेश सिंह थाना गुलरिहा
- 8-का0 रामसुरेश चौधरी थाना गुलरिहा
- 9-का0 राहुल कुमार थाना गुलरिहा